



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576]

नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 4, 2006/अग्राहायण 13, 1928

No. 576]

NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 4, 2006/AGRAHAYANA 13, 1928

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 दिसम्बर, 2006

सं. 115/2006-सीमा-शुल्क

सा.का.नि. 733(अ).—केन्द्रीय सरकार सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 21/2002-सीमा-शुल्क, तारीख 1 मार्च, 2002, सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 में निम्नलिखित और संशोधन करती है अर्थात् :-

उक्त अधिसूचना में, प्रस्तावना में, परंतुक में, खंड (च) में, शब्द और अंक "1 अप्रैल, 2007" के स्थान पर शब्द और अंक "1 अगस्त, 2007" प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

[फा. सं. 354/68/2006-टीआरयू]

एस. बजाज, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना सा.का.नि. 118(अ), तारीख 1 मार्च, 2002 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण द्वारा प्रकाशित की गई थी, और उसमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. 114/2006-सीमा-शुल्क, तारीख 28 नवम्बर, 2006 सा.का.नि. 726(अ), तारीख 28 नवम्बर, 2006 द्वारा किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th December, 2006

No. 115/2006-CUSTOMS

G.S.R. 733(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 21/2002-Customs, dated the 1st March, 2002 which was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002, namely :—

In the said notification, in the preamble, in the proviso, in clause (f), for the words and figures "1st day of April, 2007", the words and figures "1st day of August, 2007" shall be substituted.

[F. No. 354/68/2006-TRU]

S. BAJAJ, Under Secy.

Note : The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 118(E), dated the 1st March, 2002 and was last amended by notification No. 114/2006-Customs, dated the 28th November, 2006 which was published in the Gazette of India, Extraordinary vide number G.S.R. 726(E), dated the 28th November, 2006.